



## मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची, दिनांक-10.04.2018

- दीपावली तक झारखण्ड के हर घर पहुंचेगी बिजली- रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखंड

झारखण्ड मंत्रालय में पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि लम्बित कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि पावर स्टेशन निर्माण में 6 स्टेशन दुमका, चाईबासा मधुपुर, मनोहरपुर, गोविन्दपुर तथा मानगो में पूरा हो चुका है। पतरातु, लातेहार और लोहरदगा में भी जल्द ही पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने पावर सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन में जहां कुछ बाधाएं हैं उसे तुरंत पहल कर दूर करने का भी निदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए बिजली बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड का हर घर विद्युत से रोशन करने का लक्ष्य दीपावली तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नए पावर स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन से निर्बाध विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

ज्ञात हो कि 24 फरवरी 2012 में JUSNL के साथ एग्रीमेंट हुआ था किंतु, 2014 तक इसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा 2015 के प्रारम्भ से ही इस पर विशेष जोर दिए जाने के कारण वर्तमान में 9 पावर सब स्टेशन के निर्माण तथा 27 ट्रांसमिशन लाइन के संस्थापन लक्ष्य के विरुद्ध 70 प्रतिशत कार्य को पूरा कर लिया गया है। पीजीसीएल के सीएमडी ने कहा कि शेष कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, पीजीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री इंदुशेखर झा, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री नितीन मदन कुलकर्णी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, पीजीसीएल के एक्सक्यूटिव निदेशक श्री टीसी शर्मा, श्री एसएन सहाय, श्री एस के गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।